



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 46]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 16 नवम्बर 2012-कार्तिक 25, शके 1934

भाग 3 (1)

विज्ञापन

न्यायालयों की सूचनाएं

**IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH
BENCH AT INDORE**

ORIGINAL JURISDICTION

COMPANY PETITION No. 23 of 2012.

In the matter of the Companies Act, 1956 (1) of 1956;

AND

In the matter of Sections 391 to 394 of the Companies Act, 1956,

AND

In the matter of Scheme of Amalgamation of

In the matter of

Shriji Polymers (India) Ltd., a
Company incorporated under the
Companies Act, 1956 and having
its registered office at 15D
Industrial Area, Maxi Road,
Ujjain (M. P.).

...Petitioner No. 1/Transferee Company

Shrinivas Containers and Closures
Pvt. Ltd., a Company incorporated
under the Companies Act, 1956
and having its registered office at,
8 & 9 Industrial Area, Maxi Road,
Ujjain (M. P.).

...Petitioner No. 2/Transferor Company

NOTICE OF HEARING OF PETITION

Notice is hereby given that a petition for obtaining the sanction of Hon'ble High Court

for Amalgamation of Shriniwas Containers and Closures Pvt. Ltd. with Shriji Polymers (India) Ltd. and their respective shareholders under the provisions of sections 391 to 394 of the Companies Act, 1956 was presented and the same shall be heard by the Hon'ble Court on 12th December, 2012.

Any person desirous of supporting or opposing the said Petition should send to the petitioners at their respective registered office above or to their Advocate notice of such intention signed by him or counsel so as to reach the Petitioner or its Advocate not later than 2 days before the date fixed for hearing of the Petition and appear at the hearing for the purpose in person or by his Advocate. A copy of the petition will be furnished by the undersigned to any person requiring the same on payment of the prescribed charges for the same. Any Affidavit intended to be used in opposition to the Petition should be filed in the Hon'ble Court and a copy be served on the respective Petitioner or their Advocate not less than 2 days before the date fixed for the hearing.

Indore, Dated : 2nd November, 2012.

(201-B.)

B. M. MAHESHWARI,
Advocate for the Petitioners,
25, Milinda Manor, II Floor,
Opp. Central Mall 2, R. N. T. Marg,
Indore- 452 001 (M.P.).

स्थानीय संस्थाओं की सूचनाएं

कार्यालय उज्जैन, विकास प्राधिकरण, उज्जैन

उज्जैन, दिनांक 02 नवम्बर, 2012

[धारा-50 की उप-धारा (3) के अधीन नगर विकास योजना के प्रारूप के प्रकाशन की सूचना]

क्र. 170/12.—एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन्-1973) की धारा-50 उप-धारा (3) के अधीन उज्जैन विकास प्राधिकरण की योजना क्र. पी-20/11 सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक उपयोग की योजना हेतु कस्बा उज्जैन की भूमि सर्वे क्र. 3310, 3312, 3313, 3314, 3315, 3316, 3317, 3318/1, 3318/2, 3319, 3321, 3322, 3333/1, 3333/2, 3333/3, 3336/4374, 3336 अंशभाग, 3340, 3341, 3342, 4342/4376, 3345 एवं ग्राम सांवराखेड़ी की भूमि सर्वे क्र. 3, 4, 5/1, 5/2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16/205, 17, 18, 19, 20/2, 21/1, 21/2, 22, 23/1, 23/2, 23/3, 24, 25, 26, 27, 28, 29/1/1, 29/4, 29/5, 29/6, 29/8, 30, 31/1/3, 31/2, 31/3, 31/4, 31/6, 31/7, 41, 42/1, 42/2, 43, 44, 47, 49, 50, 67/1, 67/2, 67/3, 68, 69, 70, 71, 76, 77/1/1, 77/1/2, 77/1/3, 93/2, 103, 123, 124/1/1, 124/2/1, 124/2/2/2, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134/1, 134/2, 135/1, 135/2, 135/2/2, 135/3, 135/4, 136/1, 136/2, 137, 138/1, 138/2, 139/1, 139/2, 140, 141/1, 141/2, 142, 143/1, 143/2, 144, 147/1, 147/2, 147/3, 148/1, 148/3, 149/1, 149/2, 150/1, 150/2, 151/1, 151/2/1, 156, 172/1, 174/1/2, 175/2 के क्षेत्र के लिये तैयार किये गये हैं और जिसकी एक प्रति निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण हेतु उपलब्ध हैं—

01. उज्जैन विकास प्राधिकरण, उज्जैन.
02. उप-संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश विभाग, उज्जैन.
03. आयुक्त, नगरपालिक निगम, उज्जैन.

किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर, जो नगर विकास योजना के प्रारूप से प्रभावित किसी व्यक्ति से अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में, मध्यप्रदेश राजपत्र में इस सूचना के प्रकाशन होने के तीस दिन के भीतर लिखित में प्राप्त हो, विचार किया जावेगा.

उक्त योजना को पी-20/11 नाम दिया गया है.

(196-बी.)

Ujjain, Dated 2nd November, 2012**[Notice of Publication of Draft of Town Development Scheme****under sub-section (3) of section 50]**

Sr. No. 170/12.—Notice is hereby given that a Draft of Town Development Scheme P-20/11 Public & Semi-Public Purpose Scheme prepared for the area of Gram kasba Ujjain and Gram Sanvara khedi bearing survey number as below Kasba Ujjain 3310, 3312, 3313, 3314, 3315, 3316, 3317, 3318/1, 3318/2, 3319, 3321, 3322, 3333/1, 3333/2, 3333/3, 3336/4374, 3336 Part, 3340, 3341, 3342, 4342/4376, 3345 and Gram Sanvarakhedi Number 3, 4, 5/1, 5/2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16/205, 17, 18, 19, 20/2, 21/1, 21/2, 22, 23/1, 23/2, 23/3, 24, 25, 26, 27, 28, 29/1/1, 29/4, 29/5, 29/6, 29/8, 30, 31/1/3, 31/2, 31/3, 31/4, 31/6, 31/7, 41, 42/1, 42/2, 43, 44, 47, 49, 50, 67/1, 67/2, 67/3, 68, 69, 70, 71, 76, 77/1/1, 77/1/2, 77/1/3, 93/2, 103, 123, 124/1/1, 124/2/1, 124/2/2/2, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134/1, 134/2, 135/1, 135/2, 135/2/2, 135/3, 135/4, 136/1, 136/2, 137, 138/1, 138/2, 139/1, 139/2, 140, 141/1, 141/2, 142, 143/1, 143/2, 144, 147/1, 147/2, 147/3, 148/1, 148/3, 149/1, 149/2, 150/1, 150/2, 151/1, 151/2/1, 156, 172/1, 174/1/2, 175/2 Under Sub-section (3) of section 50 of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973) and a copy thereof is available for inspection during office hours in the offices of.—

1. Ujjain Development Authority, Ujjain.
2. Deputy Director Town and Country Planning.
3. Commissioner Municipal Corporation of, Ujjain.

Any objection of suggestion with respect to the draft town Development Scheme received in writing in the office of the undersigned from any person affected thereby with in 30 days of the publication of this notice in the Madhya Pradesh Gazette will be considered.

SHIVENDRA SINGH,
Chief Executive Officer.

(196 A-B.)

अन्य सूचनाएं**नाम संशोधन**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा शासकीय व अशासकीय अभिलेखों में नाम सुधीर सिंह है. अब मैं, अपना नाम सुधीर सिंह के साथ राठौड लिखवाना चाहता हूँ. अतः शासकीय/अशासकीय अभिलेखों में सुधीर सिंह राठौड लिखा जाये.

पुराना नाम :

(सुधीर सिंह)

नया नाम :

(सुधीर सिंह राठौड)

सिविल जज वर्ग-1, रीवा,

(मध्यप्रदेश).

(198-बी.)

उप-नाम परिवर्तन

मैं, वर्तमान में संजय प्रधान आत्मज श्री नर बहादुर इस नाम से जाना व पहचाना जाता था. आज से मेरा नाम संजय खत्री आत्मज श्री नर बहादुर के नाम से जाना व पहचाना जाए.

पुराना नाम :

(संजय प्रधान)

नया नाम :

(संजय खत्री)

आ. श्री नर बहादुर

ई-127, सुभाष कॉलोनी, सेमरा कलां,
गोविन्दपुरा, भोपाल (मध्यप्रदेश.)

(197-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स माटोलिया मोटल्स, नये बस स्टेण्ड के पास, लिंक रोड, ग्वालियर जो कि एक साझेदारी फर्म है, इसमें होटल एवं अन्य व्यवसाय किया जाता है. उक्त फर्म से दिनांक 31 मार्च, 2012 को श्री गिरीश अग्रवाल पुत्र श्री रमेशचन्द्र अग्रवाल, निवासी अरेरा कॉलोनी, भोपाल एवं श्रीमती रुचि अग्रवाल पुत्री श्री विष्णु प्रसाद गर्ग, निवासी 1-उषा कॉलोनी, ग्वालियर स्वेच्छा से पृथक हो गये हैं. वर्तमान में उक्त साझेदारी व्यवसाय श्री विष्णु प्रसाद गर्ग, श्री निपुन गर्ग एवं श्री नीलेश शर्मा साझेदारों द्वारा चलाया जा रहा है.

(विष्णु प्रसाद गर्ग,)

मैसर्स माटोलिया मोटल्स,
नये बस स्टेण्ड के पास, लिंक रोड,
ग्वालियर (मध्यप्रदेश).

(200-बी.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास, पिछोर, जिला शिवपुरी

पिछोर, दिनांक 30 अक्टूबर, 2012

प्र. क्र./04/2011-12/बी-113.

फॉर्म-4

[नियम 5 (1) देखिये]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की उप-धारा (2)

और मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1962 का नियम 5 (1) के अन्तर्गत]

चूंकि श्री हरीशंकर शर्मा पुत्र श्री रामचरण शर्मा निवासी पिछोर द्वारा श्री जय भगवान परशुराम मंदिर सेवा समिति भौती के विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के पंजीयन हेतु आवेदन पत्र लोक न्यास अधिनियम की धारा-4 के तहत प्रस्तुत किया है. एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन दिनांक 30 नवम्बर, 2012 सुनवाई हेतु नियत है.

कोई भी व्यक्ति जो उक्त न्यास अथवा सम्पत्ति में हित रखता हो और उस न्यास के संबंध में कोई आक्षेप प्रस्तुत करना चाहता हो या सुझाव देना चाहता हो तो इस अधिसूचना प्रकाशन के दिनांक से 30 दिवस के भीतर लिखित कथन प्रस्तुत करें तथा नियत दिनांक को स्वयं या अभिभाषक अथवा अभिकर्ता के द्वारा मेरे समक्ष उपस्थित हों. निर्धारित अवधि के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम व पता तथा लोक न्यास की चल व अचल सम्पत्ति का ब्यौरा)

1. न्यास का नाम . . . श्री जय भगवान परशुराम मंदिर सेवा समिति भौती, तहसील पिछोर, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश.
2. चल/अचल सम्पत्ति . . . भगवान परशुराम जी का मंदिर जिसमें भगवान परशुराम की मूर्ति बिराजमान है जिसकी लम्बाई व चौड़ाई 20 × 20 फुट है. मंदिर की कुल लगात मूल्य 3 लाख 18 हजार 429 रु. 1 मूर्ति भगवान परशुराम की लगभग 4 फुट जिसकी कीमत 5,000 रु. मंदिर का 1 चबूतरा 20×40 फुट कीमत 20,000 रु. मंदिर के नाम नगद जमा मध्य भारत ग्रामीण बैंक शाखा, भौती में 1 लाख 5 हजार 772 रु. जमा है, 1 सीलिंग फैन कीमत 500 रु, पूजा के तावे के बर्तन 5, चम्मच गिलसिया 1, छोटी थाली, लोटा, कटोरी, आदि कीमत 200 रु, 1 झालर पीतल की लगभग 2 किलो कीमत 400 रु., 1 शंख कीमत 200 रु., 2 बाल्टी कीमत 200 रु. 1 पानी की टंकी कीमत 1500 रु., 2 फर्स कीमत 1000 रु., 1 तखत कीमत 1500 रु., 2 लोटा पीतल के, 4 थाली स्टील की, 5 कटोरी स्टील की कीमत लगभग 300 रु.

(548)

पिछोर, दिनांक 30 अक्टूबर, 2012

प्र. क्र./02/2011-12/बी-113.

फॉर्म-4

[नियम 5 (1) देखिये]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की उप-धारा (2)

और मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1962 का नियम 5 (1) के अन्तर्गत]

चूंकि श्री संरक्षक महंत गोकुल दास पुत्र श्री मथरी उर्फ मथुरा प्रसाद लोधी, निवासी बाचरौन चौराहा, तहसील पिछोर द्वारा श्री श्री 1008 हनुमान जी मंदिर बाचरौन चौराहा के विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के पंजीयन हेतु आवेदन पत्र लोक न्यास अधिनियम की धारा-4 के तहत प्रस्तुत किया है. एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन दिनांक 24 नवम्बर, 2012 सुनवाई हेतु नियत है.

कोई भी व्यक्ति जो उक्त न्यास अथवा सम्पत्ति में हित रखता हो और उस न्यास के संबंध में कोई आक्षेप प्रस्तुत करना चाहता हो या सुझाव देना चाहता हो तो इस अधिसूचना प्रकाशन के दिनांक से 30 दिवस के भीतर लिखित कथन प्रस्तुत करें तथा नियत दिनांक को स्वयं या अभिभाषक अथवा अभिकर्ता के द्वारा मेरे समक्ष उपस्थित हों. निर्धारित अवधि के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम व पता तथा लोक न्यास की चल व अचल सम्पत्ति का ब्यौरा)

1. न्यास का नाम . . . श्री श्री 1008 श्री मंशापूर्ण हनुमान मंदिर, बाचरौन चौराहा, तहसील पिछोर, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश.
2. चल सम्पत्ति . . . घण्टा 2, टंकी बड़ी 2, छोटी टंकी 1, कढ़ाई 2, पीतल का कूड़ा 1, स्टील का कूड़ा 1, तखत बड़े 2, पीतल का बड़ा भगोना 1, सिल्वर का भगोना 1, थाली 5, कटोरी 6, गिलास 12, पूजा की सामग्री के बर्तन शंख झालर 2, गरुड़ घण्टी 2, सीलिंग फैन 4 कुल कीमत 5000 रु.

3. अचल सम्पत्ति

3 मंदिर के कमरे, दालान खुली 1, कमरे 6, 10 × 10 कीमत 2 लाख रुपये, दुकान 13 मय गेलरी की कीमत 2 लाख 60 हजार रुपये, भूमि 0.04 है. खाली जगह 0.06 है. पठार लोहे के गाटर एवं छड़ें एवं फर्सी कीमत 40 हजार रु. कुल कीमत 5,00,000/- रु.

(548-A)

प्र. क्र./03/2011-12/बी-113.

फॉर्म-4

[नियम 5 (1) देखिये]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की उप-धारा (2)

और मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1962 का नियम 5 (1) के अन्तर्गत]

चूंकि श्री पुन्नालाल पटैरिया पुत्र श्री रामी पटैरिया, निवासी मुहार, तहसील पिछोर द्वारा श्री टपकेश्वर महादेव मंदिर, ग्राम मुहार के विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के पंजीयन हेतु आवेदन पत्र लोक न्यास अधिनियम की धारा-4 के तहत प्रस्तुत किया है. एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन दिनांक 15 नवम्बर, 2012 सुनवाई हेतु नियत है.

कोई भी व्यक्ति जो उक्त न्यास अथवा सम्पत्ति में हित रखता हो और उस न्यास के संबंध में कोई आक्षेप प्रस्तुत करना चाहता हो या सुझाव देना चाहता हो तो वह इस अधिसूचना प्रकाशन के दिनांक से 30 दिवस के भीतर लिखित कथन प्रस्तुत करें तथा नियत दिनांक को स्वयं या अभिभाषक अथवा अभिकर्ता के द्वारा मेरे समक्ष उपस्थित हों. निर्धारित अवधि के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम व पता तथा लोक न्यास की चल व अचल सम्पत्ति का ब्यौरा)

1. न्यास का नाम श्री टपकेश्वर महादेव मंदिर, मुहार तहसील पिछोर, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश.
2. चल/अचल सम्पत्ति गुफा के अन्दर 2 पत्थर के शिवलिंग, 1 नांदिया, 1 पत्थर की गणेश जी की मूर्ति, 1 हनुमानजी की मूर्ति पत्थर की 6 इंच की, 2 शिवलिंग करीब 6 इंच के गुफा के बाहर, 1 गणेश जी की मूर्ति पत्थर की 2.5 फुट की, 2 मूर्ति माता की संगमरमर की करीब 6 इंच, 1 हनुमान जी की मंदिर सहित मूर्ति संगमरमर की, अर्द्ध नारीश्वर पत्थर की मूर्ति करीब 3 फुट की, समाधि मंदिर में संगमरमर की शिव-पार्वती की मूर्ति 2-2 फुट की, 2 शिवलिंग, 2 नांदिया पत्थर के करीब 1.5 फुट, आम वाले मंदिर में स्थित शिवलिंग नांदिया पत्थर के करीब डेढ़ फुट, प्राचीन मूर्ति शिवलिंग अर्द्ध नारेश्वर, माता की मूर्ति, हनुमान जी की मूर्ति, तावें के सर्प 2 सवा किलो के, चांदी के 5 छत्र, 500 ग्राम की चांदी के सिक्के एवं हनुमान जी का मुकुट चांदी का 50 किलो पीतल का एक घण्टा एवं 5 घण्टा 20-20 किलो के, 5 घण्टा 5-5 किलो के तथा 3 घण्टा 3-3 किलो के, यज्ञ शाला पर लोहे की टीनसेड, नहाने बाले कुण्ड के ऊपर टीन सेड, हनुमान जी मंदिर के आगे टीन सेड, धुना के ऊपर 25 टीन की सेड, धुना में चीमटा 1, 1 त्रिशूल, आरती पीतल की 1, गरुड़ घण्टी पीतल की 1, झालर पीतल की 5, बड़े भगोना 2, छोटी भगोनी 4, थाली 20, गिलास 20, कटोरा 8, बक्शा बड़ा 1, छोटे बक्शा 2, फर्स बड़े 2, गंगासागर 3, तखत बड़े 2, तखत छोटे 2, माईक सेट 1 आहूजा का, टी. व्ही. ओनिडा की 1, सीलिंग फेन 1, सिलेण्डर छोटे 2, सिलेण्डर बड़ा 1, चूल्हा 1, कमरा 1 20×10 फुट, कमरा 1 10×10 फुट, नीचे का कमरा 1 20×10 फुट तीनों कमरों की कीमत लगभग 1 लाख रुपये, यज्ञ शाला स्थित 1 चबूतरा, मंदिर के कुल सामान की कीमत 1 लाख रु. एवं मंदिर की भूमि किता 16 रकबा 19.900 है. कीमत 4,50,000/ रु. है.

उमेश शुक्ला,

अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक.

(548-B)

न्यायालय रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, इन्दौर

(फॉर्म-चार)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम 5 (1) के अन्तर्गत]

“श्रीमती सुभद्रादेवी माहेश्वरी पारमार्थिक एवं धार्मिक न्यास” कार्यालय 81, कसेरा बाजार, नगारची बाखल, बजाज खाना, इन्दौर की ओर से आवेदिका श्रीमती स्नेहलता पति स्व. हरिशंकर वर्मा, निवासी 2/2, मोहनपुरा, इन्दौर द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है।

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के सम्बन्ध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्तियार के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं।

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

पब्लिक ट्रस्ट का नाम : “श्रीमती सुभद्रादेवी माहेश्वरी पारमार्थिक एवं धार्मिक न्यास”
 पता : 81, कसेरा बाजार, नगारची बाखल, बजाज खाना, इन्दौर.
 अचल सम्पत्ति : निरंक
 चल सम्पत्ति : रुपये 4,400/- (अक्षरी रुपये चार हजार, चार सौ मात्र)
 आज दिनांक 18 अक्टूबर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया।

(551)

(फॉर्म-चार)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम 5 (1) के अन्तर्गत]

“बलाई समाज पारमार्थिक ट्रस्ट” कार्यालय 3, श्रीकृष्ण विहार कॉलोनी, ओशिचन मोटर्स के पास, खण्डवा रोड, इन्दौर की ओर से आवेदक श्री नेमीचंद पी. नागराज निवासी- 3, श्रीकृष्ण विहार कॉलोनी, खण्डवा रोड, इन्दौर द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है।

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के सम्बन्ध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्तियार के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं।

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

पब्लिक ट्रस्ट का नाम : “बलाई समाज पारमार्थिक ट्रस्ट”
 पता : 3, श्रीकृष्ण विहार कॉलोनी, ओशिचन मोटर्स के पास, खण्डवा रोड, इन्दौर.
 अचल सम्पत्ति : निरंक
 चल सम्पत्ति : रुपये 12,000/- (अक्षरी रुपये बारह हजार, मात्र)
 आज दिनांक 18 अक्टूबर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया।

(551-A)

(फॉर्म-चार)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम 5 (1) के अन्तर्गत]

“मराठी सोशल ग्रुप ट्रस्ट” कार्यालय 29, स्नेहलतागंज, इन्दौर की ओर से आवेदक श्री सुधीर पिता डॉ. डी. जी. दांडेकर एवं अन्य न्यासीगणों इन्दौर द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है।

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के सम्बन्ध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्तियार के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं।

निश्चित अवधि के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

पब्लिक ट्रस्ट का नाम :	“मराठी सोशल ग्रुप ट्रस्ट”
पता :	29, स्नेहलतागंज, इन्दौर
अचल सम्पत्ति :	निरंक
चल सम्पत्ति :	रुपये 51,000/- (अक्षरी रुपये इक्यावन हजार मात्र)

आज दिनांक 18 अक्टूबर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया।

शरद श्रोत्रिय,
रजिस्ट्रार.

(551-B)

अन्य सूचनाएं

कार्यालय सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला विदिशा/रायसेन

विदिशा दिनांक 8 नवम्बर, 2012

वर्तमान भूमि उपयोग मानचित्र से संबंधित आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित करने हेतु सूचना

क्र. 2545/नग्रानि/बासोदा/2012.—एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि बासोदा (निवेश क्षेत्र) के लिये भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी मानचित्र, मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा-15 की उपधारा (1) के अधीन तैयार किया गया है और उसकी एक प्रति—

1. कलेक्टर, कार्यालय जिला विदिशा।
2. कार्यालय मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, बासोदा।
3. कार्यालय, सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय, विदिशा के कार्यालय में कार्यालयीन समय के दौरान निरीक्षण हेतु उपलब्ध है।

अनुसूची

बासोदा निवेश क्षेत्र की सीमायें

1. उत्तर में ग्राम राउखेड़ी, हतोड़ागंज तथा राजोदा की उत्तरी सीमा तक.
2. पश्चिम में ग्राम राजोदा, पठारी तथा चोरावर ग्राम की पश्चिमी सीमा तक.
3. दक्षिण में ग्राम चोरावर, गमाखर, पचमा तथा स्वरूपनगर की दक्षिणी सीमा तक.
4. पूर्व में ग्राम स्वरूपनगर, जीवाजीपुर, मेवली, हरदूखेड़ी, वेहलोत तथा राउखेड़ी की पूर्वी सीमा तक.

यदि कोई आपत्ति या सुझाव इस प्रकार तैयार किए गये वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र से संबंधित हो, उसे लिखित में कार्यालय नगरपालिका परिषद् सभागृह बासोदा या नगर तथा ग्राम निवेश के कार्यालय विदिशा में मध्यप्रदेश राजपत्र में इस सूचना के प्रकाशित होने के 30 दिन की अवधि समाप्त होने के पूर्व सम्यक् विचार हेतु प्रस्तुत करें।

बी. एल. बांके,
सहायक संचालक.

(549)



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 46]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 16 नवम्बर-2012-कार्तिक 25, शके 1934

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 01 अगस्त, 2012

1. मौसम एवं वर्षा.—राज्य में इस सप्ताह आकाश मेघाच्छादित रहा है तथा राज्य के अधिकांश जिलों में वर्षा का होना पाया गया है.

(अ) 0.1 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक.—तहसील गौरीहार (छतरपुर), हटा (दमोह), जैसिहनगर (शहडोल), भानपुर (उमरिया), थांदला, मेघनगर, पेटलावद, झाबुआ, राणापुर (झाबुआ), पंधाना (खण्डवा), बरही, कटनी, बड़वारा (कटनी) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(ब) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि. मी. तक.—तहसील लौण्डी (छतरपुर), शाहनगर (पन्ना), गढ़ाकोटा (सागर), अमरपाटन (सतना), ब्यौहारी, बुढ़ार (शहडोल), बांधवगढ़ (उमरिया), मनासा (नीमच), सोण्डवा (अलीराजपुर), डही (धार), बड़वानी (बड़वानी), मझौली, पाटन (जबलपुर), विजयराघवगढ़, बहोरीबंद (कटनी), शाहपुरा (डिण्डोरी) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(स) 35.0 मि. मी. से 53.1 मि. मी. तक.—तहसील दतिया, भाण्डेर (दतिया), पृथ्वीपुर (टीकमगढ़), छतरपुर, राजनगर, बिजावर (छतरपुर), पवई (पन्ना), देवरी (सागर), दमोह, पंथरिया (दमोह), रामनगर (सतना), त्यौंथर (रीवा), सोहागपुर (शहडोल), जेतहरी (अनूपपुर), पाली (उमरिया), सिंहावल, कुसमी, भानपुरा (सीधी), अलीराजपुर, भामरा (अलीराजपुर), कुक्षी (धार), पाटी (बड़वानी), खण्डवा (खण्डवा), खकनार (बुरहानपुर), सीहोर, जबलपुर (जबलपुर), रीठी, ढीमरखेड़ा (कटनी), डिण्डोरी (डिण्डोरी), धनोरा (सिवनी) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(द) 53.2 मि. मी. से 244.9 मि. मी. तक.—तहसील श्योपुर, कराहल, विजयपुर (श्योपुर), ग्वालियर, डबरा, घाटीगांव (ग्वालियर), शिवपुरी, खनियाधाना, नरवर, करैरा, कोलारस, पौहरी, बदरवास (शिवपुरी), अशोकनगर, मुंगावली, ईसागढ़ (अशोकनगर), गुना, राघोगढ़, बमोरी, आरोन, चाचोड़ा, कुंभराज (गुना), निवाड़ी, टीकमगढ़, वल्देवगढ़, जतारा, पलेरा, ओरछा (टीकमगढ़), नौगांव, बडामल्हरा, बकस्वाहा (छतरपुर), अजयगढ़, पन्ना, गुन्नौर (पन्ना), बीना, बण्डा, सागर, रहली, केसली, शाहगढ़ (सागर), बटियागढ़, जवेरा, तेन्दूखेड़ा, पटेरा (दमोह),

खुराजनगर, मझगावां, रामपुर-बघेलान, नागौद, उचेहरा, मैहर, बिरसिंहपुर (सतना), सिरमौर, मऊगंज, हनुमना, हजूर, गुढ़, रायपुर-कर्चुलियान (रीवा), जैतपुर, गोहपारू (शहडोल), अनूपपुर, कोतमा, पुष्परजगढ़ (अनूपपुर), गोपदवनास, मझौली, चुरहट, रामपुरनैकिन (सीधी), सुवासराटप्पा, मल्हारगढ़, गरोठ, मंदसौर, संजीत, सीतामऊ, धुन्धड़का, शामगढ़ (मन्दसौर), जावद, नीमच (नीमच), खाचरौद, महिदपुर, घटिया, उज्जैन, बड़नगर, नागदा (उज्जैन), मो. बड़ोदिया, सुसनेर, नलखेड़ा, बडोद, शुजालपुर (शाजापुर), जोवट, उदयगढ़, कट्टीवाडा (अलीराजपुर), बदनावर, सरदारपुर, धार, मनावर, धरमपुरी, गंधवानी (धार), महेश्वर, सेगांव, खरगौन, गोगावां, कसरावद, भगवानपुरा, भीकनगांव, झिरन्या (खरगौन), ठीकरी, राजपुर, सेंधवा, पानसेमल, निवाली, अंजड, वरला, (बड़वानी), हरसूद (खण्डवा), बुरहानपुर, नेपानगर (बुरहानपुर), जीरापुर, खिलचीपुर, राजगढ़, नरसिंहगढ़ (राजगढ़), बैरसिया, हुजूर (भोपाल), सीहोर (सीहोर), भैसदेही, घोड़ाडोंगरी, शाहपुर, बैतूल, आठनेर, मुलताई, आमला (बैतूल), सोहागपुर, पिपरिया, वनखेड़ी (होशंगाबाद), कुण्डम (जबलपुर), गाडरवाड़ा, करेली, नरसिंहपुर, गोटेगांव, तेन्दूखेड़ा (नरसिंहपुर), निवास, बिछिया, नैनपुर, मण्डला, घुघरी, नारायणगंज (मण्डला), चौरई (छिन्दवाड़ा), सिवनी, केवलारी, लखनादौन, घंसौर, छपारा (सिवनी), लांजी, बैहर, वारासिवनी (बालाघाट) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(ड) 245.0 मि. मी. से 450.0 मि. मी. तक. —तहसील भितरवार (ग्वालियर), पिछोर (शिवपुरी), चंदेरी (अशोकनगर), खुरई, राहतगढ़, मालथौन (सागर), आगर, शाजापुर, कालापीपल, गुलाना (शाजापुर), बडवाह (खरगौन), ब्यावरा, सांरगपुर (राजगढ़), आष्टा, इछावर (सीहोर), चिचोली (बैतूल), पचमढ़ी (होशंगाबाद), छिन्दवाड़ा, जुन्नारदेव, परासिया, ताबिया, सोंसर, पांडुर्णा, अमरवाड़ा, बिछुआ, हरई, मोहखेड़ा (छिन्दवाड़ा), बरघाट, कुरई (सिवनी), बालाघाट, कटंगी (बालाघाट) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(इ) 450.1 मि. मी. से अधिकतम तक. —तहसील तराना (उज्जैन), नसरुल्लागंज, बुधनी (सीहोर), सिवनी-मालवा, होशंगाबाद, बावई, इटारसी (होशंगाबाद) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

2. जुताई.—जिला श्योपुर, ग्वालियर, दमोह, सतना, रीवा, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, सीधी, सिंगरौली, शाजापुर, खरगौन, जबलपुर, कटनी, मण्डला, सिवनी में जुताई एवं श्योपुर, ग्वालियर, छतरपुर, सागर, दमोह, सतना, रीवा, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, सीधी, सिंगरौली, होशंगाबाद, डिण्डोरी, छिन्दवाड़ा, सिवनी, बालाघाट में रोपाई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

3. बोनी.—जिला डिण्डोरी, सिवनी में फसल कोदों-कुटकी, जगनी व श्योपुर, ग्वालियर, दमोह, सतना, रीवा, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, खरगौन, सीधी, झाबुआ, जबलपुर, कटनी, मण्डला एवं भोपाल में खरीफ फसल की बोनी का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

4. फसल स्थिति.—

5. कटाई.—

6. सिंचाई.—जिला ग्वालियर, गुना, छतरपुर, सागर, सतना, शहडोल, अनूपपुर, सीधी, मंदसौर, नीमच, झाबुआ, भोपाल, बैतूल, बालाघाट में सिंचाई हेतु पानी कहीं-कहीं अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

7. पशुओं की स्थिति.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है.

8. चारा.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

9. बीज.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

10. खेतिहर श्रमिक.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं.

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, समाहांत बुधवार, दिनांक 01 अगस्त, 2012

जिला/तहसीलें	1.सप्ताह में हुई वर्षा:- (अ) वर्षा का माप (मि. मी.) में (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव:- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर, रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :- (1) फसल का क्षेत्रफल - (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई. (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक). 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि-सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
1	2	3	4	5	6
*जिला मुरैना :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. अम्बाह	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. पोरसा	..		(2) ..		
3. मुरैना	..				
4. जौरा	..				
5. सबलगाढ़	..				
6. कैलारस	..				
जिला श्योपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व रोपाई का कार्य चालू है.	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
1. श्योपुर	96.0		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. कराहल	110.0		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. विजयपुर	104.5				
*जिला भिण्ड :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. अटेर	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. भिण्ड	..		(2) ..		
3. गोहद	..				
4. मेहगांव	..				
5. लहार	..				
6. मिहोना	..				
7. रौन	..				
जिला ग्वालियर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व रोपाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. ग्वालियर	165.8		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. डबरा	195.0		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. भितरवार	290.0				
4. घाटीगांव	139.0				
जिला दतिया :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सेवड़ा	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. दतिया	39.0		(2) ..		
3. भाण्डेर	52.0				
जिला शिवपुरी :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. शिवपुरी	109.0		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पिछोर	437.6		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. खनियाधाना	237.0				
4. नरवर	180.0				
5. करैरा	164.0				
6. कोलारस	244.0				
7. पोहरी	103.0				
8. बदरवास	146.0				

1	2	3	4	5	6
जिला अशोकनगर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5.	7. ..
1. मुँगावली	165.0		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. ..
2. ईसागढ़	189.0		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. अशोकनगर	200.9				
4. चन्देरी	279.0				
5. शाढौरा	..				
जिला गुना :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गुना	193.0		4. (1) ..	6. संतोषप्रद	8. ..
2. राघोगढ़	107.0		(2)	
3. बमोरी	143.0				
4. आरोन	132.0				
5. चाचौड़ा	133.0				
6. कुम्भराज	159.0				
7. मकसूदनगढ़	..				
जिला टीकमगढ़ :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवाड़ी	75.4		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पृथ्वीपुर	45.0		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. जतारा	202.0				
4. मोहनगढ़	..				
5. टीकमगढ़	131.0				
6. लिधौरा	..				
7. बल्देवगढ़	143.0				
8. खरगापुर	वर्षामापी यंत्र नहीं				
9. पलेरा	197.0				
10. ओरछा	65.0				
जिला छतरपुर :	मिलीमीटर	2. रोपाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. लौण्डी	33.0		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. गौरीहार	17.0		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. नौगांव	169.8				
4. छतरपुर	52.6				
5. राजनगर	39.0				
6. बिजावर	46.0				
7. बड़ामलहरा	192.8				
8. बकस्वाहा	110.8				
जिला पन्ना :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. ..
1. अजयगढ़	66.3		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पन्ना	154.0		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. गुन्नौर	118.0				
4. पवई	47.4				
5. शाहनगर	25.8				
जिला सागर :	मिलीमीटर	2. रोपाई का कार्य चालू है.	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बीना	140.8		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खुरई	294.2		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. बण्डा	162.5				
4. सागर	77.9				
5. रहली	54.4				
6. देवरी	42.2				
7. गढ़ाकोटा	34.2				
8. राहतगढ़	263.0				
9. केसली	60.0				
10. मालथोन	277.8				
11. शाहगढ़	165.0				

1	2	3	4	5	6
जिला दमोह :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व रोपाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हटा	17.0		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. बटियागढ़	108.0		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. दमोह	36.8				
4. पथरिया	43.0				
5. जवेरा	101.0				
6. तेन्दूखेड़ा	69.8				
7. पटेरा	71.0				
जिला सतना :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व रोपाई का कार्य चालू है..	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. रघुराजनगर	63.4		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. मझगवां	156.0		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. रामपुर-बधेलान	80.0				
4. नागौद	123.0				
5. उचेहरा	107.0				
6. अमरपाटन	30.0				
7. रामनगर	43.0				
8. मैहर	54.0				
9. बिरसिंहपुर	109.0				
जिला रीवा :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व रोपाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. ..	7. पर्याप्त.
1. त्योंथर	46.0		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिरमौर	199.0		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. सेमरिया	..				
4. मऊगंज	216.0				
5. हनुमना	6.0				
6. हजूर	173.0				
7. जबा	..				
8. गुढ़	92.4				
9. रायपुरकूर्जिलियान	90.0				
10. नईगढ़ी	..				
11. मनगवां	..				
जिला शहडोल :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व रोपाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोहागपुर	35.0		4.(1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. ब्यौहारी	24.0		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. जैसिंहनगर	16.0				
4. जैतपुर	73.0				
5. बुढ़ार	34.7				
6. गोहपारू	77.0				
जिला अनूपपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व रोपाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जेतहरी	35.0		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. अनूपपुर	78.4		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. कोतमा	95.0				
4. पुष्पराजगढ़	57.0				
जिला उमरिया :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व रोपाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. ..	7. पर्याप्त.
1. बांधवगढ़	27.9		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पाली	48.0		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. मानपुर	13.0				

1	2	3	4	5	6
जिला सीधी :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं खरीफ	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गोपदवनास	71.8	फसलों की बोनी व	4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिहावल	45.0	धान की रोपाई का कार्य	(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. मझौली	74.2	चालू है.			
4. कुसमी	42.0				
5. चुरहट	182.1				
6. रामपुरनैकिन	133.0				
जिला सिंगरौली :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं रोपाई का	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
1. चितरंगी	..	कार्य चालू है	4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. देवसर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. सिंगरौली	..				
जिला मन्दासौर :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सुवासरा-टप्पा	75.7		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. भानपुरा	39.0		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. मल्हारगढ़	77.0				
4. गरोठ	81.2				
5. मन्दासौर	188.0				
6. धुन्धडका	150.0				
7. सीतामऊ	168.6				
8. शामगढ़	184.9				
9. संजीत	113.0				
जिला नीमच :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावद	58.0		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. नीमच	67.4		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. मनासा	25.2				
*जिला रतलाम :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. जावरा	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. आलोट	..		(2) ..		
3. सैलाना	..				
4. बाजना	..				
5. पिपलौदा	..				
6. रतलाम	..				
जिला उज्जैन :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खाचरौद	215.0		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. महिदपुर	228.0		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. तराना	451.2				
4. घटिया	243.0				
5. उज्जैन	229.0				
6. बड़नगर	170.0				
7. नागदा	205.0				
जिला शाजापुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. मो. बड़ोदिया	156.0		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सुसनेर	177.0		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. नलखेड़ा	209.0				
4. आगर	248.0				
5. बड़ोद	237.0				
6. शाजापुर	282.0				
7. शुजालपुर	230.0				
8. कालापिपल	266.0				
9. गुलाना	268.0				

1	2	3	4	5	6
जिला देवास :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोनकच्छ	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. टोंकखुर्द	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. देवास	..				
4. बागली	..				
5. कन्नौद	..				
6. खातेगांव	..				
जिला झाबुआ :	मिलीमीटर	2. खरीफ फसल की बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. थांदला	10.0		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. मेघनगर	3.0		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. पेटलावद	6.4				
4. झाबुआ	3.0				
5. राणापुर	5.0				
जिला अलीराजपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. . .	7. पर्याप्त.
1. जोवट	68.4		4. (1) ..	6. संतोषप्रद.	8. पर्याप्त.
2. अलीराजपुर	39.6		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. उदयगढ़	56.6				
4. भामरा	36.0				
5. सोण्डवा	27.0				
6. कट्टीवाड़ा	60.8				
जिला धार :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बदनावर	181.6		4. (1) ..	6. संतोषप्रद.	8. पर्याप्त.
2. सरदारपुर	109.0		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. धार	136.5				
4. कुंक्षी	46.3				
5. मनावर	63.0				
6. धरमपुरी	88.0				
7. गंधवानी	78.0				
8. डही	25.0				
जिला इन्दौर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. देपालपुर	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सांवेर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. इन्दौर	..				
4. महु	..				
(डॉ. अम्बेडकरनगर)					
जिला प. निमाड़ :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. बड़वाह	260.1		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सनावद	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. महेश्वर	118.2				
4. सेगांव	95.0				
5. करही	..				
6. खरगोन	120.5				
7. गोगावां	110.0				
8. कसरावद	116.0				
9. मुल्ठान	..				
10. भगवानपुरा	90.9				
11. भीकनगांव	170.0				
12. झिरन्या	115.0				

1	2	3	4	5	6
जिला बड़वानी :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वानी	19.8		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. ठीकरी	106.0		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. राजपुर	54.0				
4. सेंधवा	93.0				
5. पानसेमल	61.0				
6. पाटी	52.0				
7. निवाली	183.4				
8. अंजड़	106.0				
9. वरला	93.0				
जिला पूर्व-निमाड़ :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खण्डवा	52.0		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पंधाना	16.1		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. हरसूद	87.0				
जिला बुरहानपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	115.4		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खकनार	41.1		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. नेपानगर	54.0				
जिला राजगढ़ :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. जीरापुर	164.2		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खिलचीपुर	132.8		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. राजगढ़	209.4				
4. पचौर	..				
5. ब्यावरा	376.8				
6. सारंगपुर	271.1				
7. नरसिंहगढ़	204.4				
*जिला विदिशा :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. लटेरी	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. सिरोंज	..		(2) ..		
3. कुरवाई	..				
4. बासौदा	..				
5. नटेरन	..				
6. विदिशा	..				
7. ग्यारसपुर	..				
जिला भोपाल :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बैरसिया	135.4		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. हुजूर	111.4		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
जिला सीहोर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सीहोर	212.4		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. श्यामपुर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. आष्टा	409.0				
4. जोवट	..				
5. इछावर	375.0				
6. नसरुल्लागंज	713.0				
7. बुधनी	678.0				
8. रेहटी	..				

1	2	3	4	5	6
*जिला रायसेन :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. रायसेन	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. गैरतगंज	..		(2) ..		
3. बेगमगंज	..				
4. गोहरगंज	..				
5. बरेली	..				
6. सिलवानी	..				
7. बाड़ी	..				
8. उदयपुरा	..				
जिला बैतूल :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. भैसदेही	172.6		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. घोड़ाडोंगरी	200.2		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. शाहपुर	206.0				
4. चिचोली	377.1				
5. बैतूल	166.0				
6. मुलताई	109.0				
7. आठनेर	143.5				
8. आमला	145.0				
जिला होशंगाबाद :	मिलीमीटर	2. धान की रोपाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी-मालवा	503.2		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. होशंगाबाद	503.0		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. बाबई	513.0				
4. इटारसी	664.4				
5. सोहागपुर	222.0				
6. पिपरिया	173.4				
7. वनखेड़ी	110.7				
8. पचमढी	285.1				
जिला हरदा :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हरदा	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खिड़किया	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. टिमरनी	..				
4. हण्डिया	..				
5. रहटगांव	..				
6. सिराली	..				
जिला जबलपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सीहोरा	40.6		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पाटन	29.2		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. जबलपुर	51.6				
4. मझौली	23.2				
5. कुण्डम	70.2				
जिला कटनी :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं खरीफ फसल की बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. कटनी	17.0		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. रीठी	49.0		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. विजयराघवगढ़	18.0				
4. बहोरीबंद	22.8				
5. ढीमरखेड़ा	45.0				
6. बड़वारा	13.0				
7. बरही	8.0				

1	2	3	4	5	6
जिला नरसिंहपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गाडरवारा	91.0		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. करेली	62.0		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. नरसिंहपुर	90.0				
4. गोटेगांव	66.0				
5. तेन्दूखेड़ा	137.0				
जिला मण्डला :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवास	75.5		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. बिछिया	129.5		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. नैनपुर	174.9				
4. मण्डला	192.4				
5. घुघरी	66.5				
6. नारायणगंज	118.9				
जिला डिण्डोरी :	मिलीमीटर	2. कोंदो कुटकी एवं जगनी की बोनी व धान की रोपाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. डिण्डोरी	48.9		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. शाहपुरा	27.8		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
जिला छिन्दवाड़ा :	मिलीमीटर	2. रोपाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. छिन्दवाड़ा	251.2		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. जुन्नारदेव	250.6		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. परासिया	398.1				
4. जामई (तामिया)	308.2				
5. सोंसर	257.6				
6. पांडुर्णा	299.0				
7. अमरवाड़ा	262.6				
8. चौरई	210.8				
9. बिछुआ	305.9				
10. हरई	296.4				
11. मोहखेड़ा	292.4				
जिला सिवनी :	मिलीमीटर	2. धान की जुताई एवं कोदों कुटकी, जगनी कार्य व रोपाई का कार्य चालू है.	3. ..	5. . .	7. पर्याप्त.
1. सिवनी	152.0		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. केवलारी	127.0		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. लखनादौन	125.5				
4. बरघाट	312.4				
5. कुरई	447.0				
6. घंसौर	427.0				
7. धनोरा	42.4				
8. छपारा	161.6				
जिला बालाघाट :	मिलीमीटर	2. रोपाई का कार्य चालू है.	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. . .
1. बालाघाट	250.8		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. . .
2. लाँजी	182.0		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. बैहर	160.0				
4. वारासिवनी	164.6				
5. कटंगी	348.8				
6. किरनापुर	..				

टीप.— *जिला मुरैना, भिण्ड, रतलाम, विदिशा, रायसेन से पत्रक अप्राप्त रहे हैं.

राजीव रंजन,

आयुक्त,

भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.

(547)